

संबंध एवं फलन (Relations and Functions)


❖ *There is no permanent place in the world for ugly mathematics It may be very hard to define mathematical beauty but that is just as true of beauty of any kind, we may not know quite what we mean by a beautiful poem, but that does not prevent us from recognising one when we read it. — G. H. Hardy* ❖

1.1 भूमिका (Introduction)

स्मरण कीजिए कि कक्षा XI में, संबंध एवं फलन, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर आदि की अवधारणाओं का, विभिन्न प्रकार के वास्तविक मानीय फलनों और उनके आलेखों सहित परिचय कराया जा चुका है। गणित में शब्द 'संबंध (Relation)' की सकल्पना को अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसके अनुसार दो वस्तुएँ परस्पर संबंधित होती हैं, यदि उनके बीच एक अभिज्ञेय (Recognisable) कड़ी हो। मान लीजिए कि A, किसी स्कूल की कक्षा XII के विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा B उसी स्कूल की कक्षा XI के विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब समुच्चय A से समुच्चय B तक के संबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

- $\{(a, b) \in A \times B: a, b \text{ का भाई है}\}$,
- $\{(a, b) \in A \times B: a, b \text{ की बहन है}\}$,
- $\{(a, b) \in A \times B: a \text{ की आयु } b \text{ की आयु से अधिक है}\}$,
- $\{(a, b) \in A \times B: \text{पिछली अंतिम परीक्षा में } a \text{ द्वारा प्राप्त पूर्णांक } b \text{ द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है}\}$,
- $\{(a, b) \in A \times B: a \text{ उसी जगह रहता है जहाँ } b \text{ रहता है}\}$.

तथापि A से B तक के किसी संबंध R को अमूर्तरूप (Abstracting) से हम गणित में $A \times B$ के एक स्वेच्छ (Arbitrary) उपसमुच्चय की तरह परिभाषित करते हैं।



Lejeune Dirichlet
(1805-1859)

यदि $(a, b) \in R$, तो हम कहते हैं कि संबंध R के अंतर्गत a, b से संबंधित है और हम इसे $a R b$ लिखते हैं। सामान्यतः, यदि $(a, b) \in R$, तो हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि a तथा b के बीच कोई अभिज्ञेय कड़ी है अथवा नहीं है। जैसा कि कक्षा XI में देख चुके हैं, फलन एक विशेष प्रकार के संबंध होता है।

इस अध्याय में, हम विभिन्न प्रकार के संबंधों एवं फलनों, फलनों के संयोजन (composition), व्युत्क्रमणीय (Invertible) फलनों और द्विआधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।

1.2 संबंधों के प्रकार (Types of Relations)

इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करेंगे। हमें ज्ञात है कि किसी समुच्चय A में संबंध, $A \times A$ का एक उपसमुच्चय होता है। अतः रिक्त समुच्चय $\phi \subset A \times A$ तथा $A \times A$ स्वयं, दो अन्त्य संबंध हैं। स्पष्टीकरण हेतु, $R = \{(a, b) : a - b = 10\}$ द्वारा प्रदत्त समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ पर परिभाषित एक संबंध R पर विचार कीजिए। यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसा कोई भी युग्म (pair) नहीं है जो प्रतिबंध $a - b = 10$ को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार $R' = \{(a, b) : |a - b| \geq 0\}$, संपूर्ण समुच्चय $A \times A$ के तुल्य है, क्योंकि $A \times A$ के सभी युग्म $(a, b), |a - b| \geq 0$ को संतुष्ट करते हैं। यह दोनों अन्त्य के उदाहरण हमें निम्नलिखित परिभाषाओं के लिए प्रेरित करते हैं।

परिभाषा 1 समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक **रिक्त संबंध** कहलाता है, यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात् $R = \phi \subset A \times A$ ।

परिभाषा 2 समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R , एक **सार्वत्रिक (universal) संबंध** कहलाता है, यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात् $R = A \times A$ ।

रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी-कभी तुच्छ (trivial) संबंध भी कहते हैं।

उदाहरण 1 मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि $R = \{(a, b) : a, b \text{ की बहन है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा $R' = \{(a, b) : a \text{ तथा } b \text{ की ऊँचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है।

हल प्रश्नानुसार, क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतएव स्कूल का कोई भी विद्यार्थी, स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। अतः $R = \phi$, जिससे प्रदर्शित होता है कि R रिक्त संबंध है। यह भी स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊँचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। इससे प्रकट होता है कि $R' = A \times A$ सार्वत्रिक संबंध है।

टिप्पणी कक्षा XI में विद्यार्थीगण सीख चुके हैं कि किसी संबंध को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, नामतः रोस्टर विधि तथा समुच्चय निर्माण विधि। तथापि बहुत से लेखकों द्वारा समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ पर परिभाषित संबंध $R = \{(a, b) : b = a + 1\}$ को $a R b$ द्वारा भी निरूपित किया जाता है, यदि और केवल यदि $b = a + 1$ हो। जब कभी सुविधाजनक होगा, हम भी इस संकेतन (notation) का प्रयोग करेंगे।

यदि $(a, b) \in R$, तो हम कहते हैं कि a, b से संबंधित है' और इस बात को हम $a R b$ द्वारा प्रकट करते हैं।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संबंध, जिसकी गणित में एक सार्थक (significant) भूमिका है, तुल्यता संबंध (Equivalence Relation) कहलाता है। तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए हम पहले तीन प्रकार के संबंधों, नामतः स्वतुल्य (Reflexive), सममित (Symmetric) तथा संक्रामक (Transitive) संबंधों पर विचार करते हैं।

परिभाषा 3 समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R ;

- (i) स्वतुल्य (**reflexive**) कहलाता है, यदि प्रत्येक $a \in A$ के लिए $(a, a) \in R$,
- (ii) सममित (**symmetric**) कहलाता है, यदि समस्त $a_1, a_2 \in A$ के लिए $(a_1, a_2) \in R$ से $(a_2, a_1) \in R$ प्राप्त हो।
- (iii) संक्रामक (**transitive**) कहलाता है, यदि समस्त $a_1, a_2, a_3 \in A$ के लिए $(a_1, a_2) \in R$ तथा $(a_2, a_3) \in R$ से $(a_1, a_3) \in R$ प्राप्त हो।

परिभाषा 4 A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है, यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है।

उदाहरण 2 मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में $R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के सर्वांगसम है}\}$ एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है।


हल संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। पुनः $(T_1, T_2) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow T_2, T_1$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow (T_2, T_1) \in R$. अतः संबंध R सममित है। इसके अतिरिक्त $(T_1, T_2), (T_2, T_3) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के सर्वांगसम है तथा T_2, T_3 के सर्वांगसम है $\Rightarrow T_1, T_3$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow (T_1, T_3) \in R$. अतः संबंध R संक्रामक है। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है।

उदाहरण 3 मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा $R = \{(L_1, L_2) : L_1, L_2 \text{ पर लंब है}\}$ समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है।

हल R स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई रेखा L_1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, अर्थात् $(L_1, L_1) \notin R$. R सममित है, क्योंकि $(L_1, L_2) \in R$

- $$\begin{aligned} \Rightarrow & L_1, L_2 \text{ पर लंब है} \\ \Rightarrow & L_2, L_1 \text{ पर लंब है} \\ \Rightarrow & (L_2, L_1) \in R \end{aligned}$$

R संक्रामक नहीं है। निश्चय ही, यदि L_1, L_2 पर लंब है तथा L_2, L_3 पर लंब है, तो L_1, L_3 पर कभी भी लंब नहीं हो सकती है। वास्तव में ऐसी दशा में L_1, L_3 के समान्तर होगी। अर्थात्, $(L_1, L_2) \in R$, $(L_2, L_3) \in R$ परंतु $(L_1, L_3) \notin R$



आकृति 1.1

उदाहरण 4 सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है।

हल R स्वतुल्य है क्योंकि $(1, 1), (2, 2)$ और $(3, 3)$, R के अवयव हैं। R सममित नहीं है, क्योंकि $(1, 2) \in R$ किंतु $(2, 1) \notin R$ । इसी प्रकार R संक्रामक नहीं है, क्योंकि $(1, 2) \in R$ तथा $(2, 3) \in R$ परंतु $(1, 3) \notin R$ ।

उदाहरण 5 सिद्ध कीजिए कि पूर्णाकों के समुच्चय \mathbf{Z} में $R = \{(a, b) : \text{संख्या } 2, (a - b) \text{ को विभाजित करती है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है।

हल R स्वतुल्य है, क्योंकि समस्त $a \in \mathbf{Z}$ के लिए $2, (a - a)$ को विभाजित करता है। अतः $(a, a) \in R$ । पुनः, यदि $(a, b) \in R$, तो $2, a - b$ को विभाजित करता है। अतएव $b - a$ को भी 2 विभाजित करता है। अतः $(b, a) \in R$, जिससे सिद्ध होता है कि R सममित है। इसी प्रकार, यदि $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R$, तो $a - b$ तथा $b - c$ संख्या 2 से भाज्य है। अब, $a - c = (a - b) + (b - c)$ सम (even) है (क्यों?)। अतः $(a - c)$ भी 2 से भाज्य है। इससे सिद्ध होता है कि R संक्रामक है। अतः समुच्चय \mathbf{Z} में R एक तुल्यता संबंध है।

उदाहरण 5 में, नोट कीजिए कि सभी सम पूर्णाक शून्य से संबंधित हैं, क्योंकि $(0, \pm 2), (0, \pm 4), \dots$ आदि R में हैं और कोई भी विषम पूर्णाक 0 से संबंधित नहीं है, क्योंकि $(0, \pm 1), (0, \pm 3), \dots$ आदि R में नहीं हैं। इसी प्रकार सभी विषम पूर्णाक 1 से संबंधित हैं और कोई भी सम पूर्णाक 1 से संबंधित नहीं है। अतएव, समस्त सम पूर्णाकों का समुच्चय E तथा समस्त विषम पूर्णाकों का समुच्चय O समुच्चय \mathbf{Z} के उप समुच्चय हैं, जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं।

- (i) E के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा O के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं।
- (ii) E का कोई भी अवयव O के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है और विलोमतः O का कोई भी अवयव E के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है।
- (iii) E तथा O असंयुक्त है और $\mathbf{Z} = E \cup O$ है।

उपसमुच्चय E, शून्य को अंतर्विष्ट (contain) करने वाला तुल्यता-वर्ग (Equivalence Class) कहलाता है और जिसे प्रतीक $[0]$ से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार O, 1 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता-वर्ग है, जिसे $[1]$ द्वारा निरूपित करते हैं। नोट कीजिए कि $[0] \neq [1], [0] = [2r]$ और

$[1] = [2r + 1]$, $r \in \mathbf{Z}$. वास्तव में, जो कुछ हमने ऊपर देखा है, वह किसी भी समुच्चय X में एक स्वेच्छ तुल्यता संबंध R के लिए सत्य होता है। किसी प्रदत्त स्वेच्छ समुच्चय X में प्रदत्त एक स्वेच्छ (arbitrary) तुल्यता संबंध R , X को परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों A_i में विभाजित कर देता है, जिन्हें X का विभाजन (Partition) कहते हैं और जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं:

- (i) समस्त i के लिए A_i के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
- (ii) A_i का कोई भी अवयव, A_j के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, जहाँ $i \neq j$
- (iii) $\cup A_j = X$ तथा $A_i \cap A_j = \phi$, $i \neq j$

उपसमुच्चय A_i तुल्यता-वर्ग कहलाते हैं। इस स्थिति का रोचक पक्ष यह है कि हम विपरीत क्रिया भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए \mathbf{Z} के उन उपविभाजनों पर विचार कीजिए, जो \mathbf{Z} के ऐसे तीन परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों A_1 , A_2 तथा A_3 द्वारा प्रदत्त हैं, जिनका सम्मिलन (Union) \mathbf{Z} है,

$$A_1 = \{x \in \mathbf{Z} : x \text{ संख्या } 3 \text{ का गुणज है}\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

$$A_2 = \{x \in \mathbf{Z} : x - 1 \text{ संख्या } 3 \text{ का गुणज है}\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$

$$A_3 = \{x \in \mathbf{Z} : x - 2 \text{ संख्या } 3 \text{ का गुणज है}\} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$

\mathbf{Z} में एक संबंध $R = \{(a, b) : 3, a - b \text{ को विभाजित करता है}\}$ परिभाषित कीजिए। उदाहरण 5 में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हम सिद्ध कर सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। इसके अतिरिक्त A_1 , \mathbf{Z} के उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय के बराबर है, जो शून्य से संबंधित हैं, A_2 , \mathbf{Z} के उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय के बराबर है, जो 1 से संबंधित हैं और A_3 , \mathbf{Z} के उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय बराबर है, जो 2 से संबंधित हैं। अतः $A_1 = [0]$, $A_2 = [1]$ और $A_3 = [2]$. वास्तव में $A_1 = [3r]$, $A_2 = [3r + 1]$ और $A_3 = [3r + 2]$, जहाँ $r \in \mathbf{Z}$.

उदाहरण 6 मान लीजिए कि समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ में $R = \{(a, b) : a \text{ तथा } b \text{ दोनों ही या तो विषम हैं या सम हैं}\}$ द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय $\{1, 3, 5, 7\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उपसमुच्चय $\{2, 4, 6\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय $\{1, 3, 5, 7\}$ का कोई भी अवयव उपसमुच्चय $\{2, 4, 6\}$ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है।

हल A का प्रदत्त कोई अवयव a या तो विषम है या सम है, अतएव $(a, a) \in R$. इसके अतिरिक्त $(a, b) \in R \Rightarrow a$ तथा b दोनों ही, या तो विषम हैं या सम हैं $\Rightarrow (b, a) \in R$. इसी प्रकार $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R \Rightarrow$ अवयव a, b, c , सभी या तो विषम हैं या सम हैं $\Rightarrow (a, c) \in R$. अतः R एक तुल्यता संबंध है। पुनः, $\{1, 3, 5, 7\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम हैं। इसी प्रकार $\{2, 4, 6\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ये सभी सम हैं। साथ ही उपसमुच्चय $\{1, 3, 5, 7\}$ का कोई भी अवयव $\{2, 4, 6\}$ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि $\{1, 3, 5, 7\}$ के अवयव विषम हैं, जब कि $\{2, 4, 6\}$ के अवयव सम हैं।

प्रश्नावली 1.1

1. निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं:
 - (i) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, \dots, 13, 14\}$ में संबंध R , इस प्रकार परिभाषित है कि

$$R = \{(x, y) : 3x - y = 0\}$$
 - (ii) प्राकृत संख्याओं के समुच्चय \mathbf{N} में $R = \{(x, y) : y = x + 5 \text{ तथा } x < 4\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R .
 - (iii) समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(x, y) : y \text{ भाज्य है } x \text{ से}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है।
 - (iv) समस्त पूर्णाकों के समुच्चय \mathbf{Z} में $R = \{(x, y) : x - y \text{ एक पूर्णांक है}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R .
 - (v) किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R
 - (a) $R = \{(x, y) : x \text{ तथा } y \text{ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं}\}$
 - (b) $R = \{(x, y) : x \text{ तथा } y \text{ एक ही मोहल्ले में रहते हैं}\}$
 - (c) $R = \{(x, y) : x, y \text{ से ठीक-ठीक } 7 \text{ सेमी लंबा है}\}$
 - (d) $R = \{(x, y) : x, y \text{ की पत्नी है}\}$
 - (e) $R = \{(x, y) : x, y \text{ के पिता हैं}\}$
2. सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय \mathbf{R} में $R = \{(a, b) : a \leq b^2\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R , न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।
3. जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(a, b) : b = a + 1\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है।
4. सिद्ध कीजिए कि \mathbf{R} में $R = \{(a, b) : a \leq b\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।
5. जाँच कीजिए कि क्या \mathbf{R} में $R = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है?
6. सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है।
7. सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में $R = \{(x, y) : x \text{ तथा } y \text{ में पृष्ठों की संख्या समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।

8. सिद्ध कीजिए कि $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में, $R = \{(a, b) : |a - b| \text{ सम है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि $\{1, 3, 5\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय $\{2, 4\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं परंतु $\{1, 3, 5\}$ का कोई भी अवयव $\{2, 4\}$ के किसी अवयव से संबंधित नहीं है।
9. सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $A = \{x \in \mathbf{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है:
- $R = \{(a, b) : |a - b|, 4 \text{ का एक गुणज है}\}$,
 - $R = \{(a, b) : a = b\}$,
- प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।
10. ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, जो
- सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो।
 - संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो।
 - स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो।
 - स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो।
 - सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो।
11. सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, $R = \{(P, Q) : \text{बिंदु } P \text{ की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु } Q \text{ की मूल बिंदु से दूरी के समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु $P \neq (0, 0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूलबिंदु पर है।
12. सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के समरूप है}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T_1 , भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T_2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T_3 पर विचार कीजिए। T_1, T_2 और T_3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं?
13. सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(P_1, P_2) : P_1 \text{ तथा } P_2 \text{ की भुजाओं की संख्या समान है}\}$ प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।
14. मान लीजिए कि XY -तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में $R = \{(L_1, L_2) : L_1 \text{ समान्तर है } L_2 \text{ के}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा $y = 2x + 4$ से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

15. मान लीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ में, $R = \{(1, 2), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3), (3, 2)\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
- (A) R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है।
 (B) R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।
 (C) R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है।
 (D) R एक तुल्यता संबंध है।
16. मान लीजिए कि समुच्चय \mathbf{N} में, $R = \{(a, b) : a = b - 2, b > 6\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए:
- (A) $(2, 4) \in R$ (B) $(3, 8) \in R$ (C) $(6, 8) \in R$ (D) $(8, 7) \in R$

1.3 फलनों के प्रकार (Types of Functions)

फलनों की अवधारणा, कुछ विशेष फलन जैसे तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, चिह्न फलन आदि का वर्णन उनके आलेखों सहित कक्षा XI में किया जा चुका है।

दो फलनों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग का भी अध्ययन किया जा चुका है। क्योंकि फलन की संकल्पना गणित तथा अध्ययन की अन्य शाखाओं (Disciplines) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम फलन के बारे में अपना अध्ययन वहाँ से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ इसे पहले समाप्त किया था। इस अनुच्छेद में, हम विभिन्न प्रकार के फलनों का अध्ययन करेंगे।


निम्नलिखित आकृतियों द्वारा दर्शाए गए फलन f_1, f_2, f_3 तथा f_4 पर विचार कीजिए।

आकृति 1.2 में हम देखते हैं कि X_1 के भिन्न (distinct) अवयवों के, फलन f_1 के अंतर्गत, प्रतिबिंब भी भिन्न हैं, किंतु f_2 के अंतर्गत दो भिन्न अवयवों 1 तथा 2 के प्रतिबिंब एक ही हैं नामतः b है। पुनः X_2 में कुछ ऐसे अवयव हैं जैसे e तथा f जो f_1 के अंतर्गत X_1 के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं, जबकि f_3 के अंतर्गत X_3 के सभी अवयव X_1 के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं।

उपर्युक्त परिचर्चा से हमें निम्नलिखित परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं।

परिभाषा 5 एक फलन $f: X \rightarrow Y$ एकैकी (one-one) अथवा एकैक (injective) फलन कहलाता है, यदि f के अंतर्गत X के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्येक $x_1, x_2 \in X$, के लिए $f(x_1) = f(x_2)$ का तात्पर्य है कि $x_1 = x_2$, अन्यथा f एक बहुएक (many-one) फलन कहलाता है।

आकृति 1.2 (i) में फलन f_1 एकैकी फलन है तथा आकृति 1.2 (ii) में f_2 एक बहुएक फलन है।



आकृति 1.2

परिभाषा 6 फलन $f: X \rightarrow Y$ आच्छादक (onto) अथवा आच्छादी (surjective) कहलाता है, यदि f के अंतर्गत Y का प्रत्येक अवयव, X के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात् प्रत्येक $y \in Y$, के लिए, X में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि $f(x) = y$.

आकृति 1.2 (iii) में, फलन f_3 आच्छादक है तथा आकृति 1.2 (i) में, फलन f_1 आच्छादक नहीं है, क्योंकि X_2 के अवयव e , तथा f, f_1 के अंतर्गत X_1 के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं।

टिप्पणी $f: X \rightarrow Y$ एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर (range) = Y .

परिभाषा 7 एक फलन $f: X \rightarrow Y$ एक एकैकी तथा आच्छादक (one-one and onto) अथवा एकैकी आच्छादी (**bijective**) फलन कहलाता है, यदि f एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही होता है।

आकृति 1.2 (iv) में, फलन f_4 एक एकैकी तथा आच्छादी फलन है।

उदाहरण 7 मान लीजिए कि कक्षा X के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) =$ विद्यार्थी x का रोल नंबर, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है।

हल कक्षा के दो भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते हैं। अतएव f एकैकी है। व्यापकता की बिना क्षति किए हम मान सकते हैं कि विद्यार्थियों के रोल नंबर 1 से 50 तक हैं। इसका


तात्पर्य यह हुआ कि \mathbf{N} का अवयव 51, कक्षा के किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है, अतएव f के अंतर्गत 51, \mathbf{A} के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है।

उदाहरण 8 सिद्ध कीजिए कि $f(x) = 2x$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है।

हल फलन f एकैकी है, क्योंकि $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$. पुनः, f आच्छादक नहीं है, क्योंकि $1 \in \mathbf{N}$, के लिए \mathbf{N} में ऐसे किसी x का अस्तित्व नहीं है ताकि $f(x) = 2x = 1$ हो।

उदाहरण 9 सिद्ध कीजिए कि $f(x) = 2x$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, एकैकी तथा आच्छादक है।

हल f एकैकी है, क्योंकि $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$. साथ ही, \mathbf{R} में प्रदत्त किसी भी वास्तविक संख्या y के लिए \mathbf{R} में $\frac{y}{2}$ का अस्तित्व है, जहाँ $f(\frac{y}{2}) = 2 \cdot (\frac{y}{2}) = y$ है। अतः f आच्छादक भी है।




आकृति 1.3

उदाहरण 10 सिद्ध कीजिए कि $f(1) = f(2) = 1$ तथा $x > 2$ के लिए $f(x) = x - 1$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है।

हल f एकैकी नहीं है, क्योंकि $f(1) = f(2) = 1$, परंतु f आच्छादक है, क्योंकि किसी प्रदत्त $y \in \mathbf{N}, y \neq 1$, के लिए, हम x को $y + 1$ चुन लेते हैं, ताकि $f(y + 1) = y + 1 - 1 = y$ साथ ही $1 \in \mathbf{N}$ के लिए $f(1) = 1$ है।

उदाहरण 11 सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^2$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

हल क्योंकि $f(-1) = 1 = f(1)$, इसलिए f एकैकी नहीं है। पुनः सहप्रांत \mathbf{R} का अवयव -2 , प्रांत \mathbf{R} के किसी भी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है (क्यों?)। अतः f आच्छादक नहीं है।



f के अंतर्गत 1 तथा -1 का प्रतिबिंब है।

आकृति 1.4

उदाहरण 12 सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{यदि } x \text{ विषम है} \\ x-1, & \text{यदि } x \text{ सम है} \end{cases}$$

हल मान लीजिए $f(x_1) = f(x_2)$ है। नोट कीजिए कि यदि x_1 विषम है तथा x_2 सम है, तो $x_1 + 1 = x_2 - 1$, अर्थात् $x_2 - x_1 = 2$ जो असम्भव है। इस प्रकार x_1 के सम तथा x_2 के विषम होने की भी संभावना नहीं है। इसलिए x_1 तथा x_2 दोनों ही या तो विषम होंगे या सम होंगे। मान लीजिए कि x_1 तथा x_2 दोनों विषम हैं, तो $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$ । इसी प्रकार यदि x_1 तथा x_2 दोनों सम हैं, तो भी $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 - 1 = x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2$ । अतः f एकैकी है। साथ ही सहप्रांत \mathbf{N} की कोई भी विषम संख्या $2r + 1$, प्रांत \mathbf{N} की संख्या $2r + 2$ का प्रतिबिंब है और सहप्रांत \mathbf{N} की कोई भी सम संख्या $2r$; \mathbf{N} की संख्या $2r - 1$ का प्रतिबिंब है। अतः f आच्छादक है।

उदाहरण 13 सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ सदैव एकैकी फलन होता है।

हल मान लीजिए कि f एकैकी नहीं है। अतः इसके प्रांत में कम से कम दो अवयव मान लिया कि 1 तथा 2 का अस्तित्व है जिनके सहप्रांत में प्रतिबिंब समान है। साथ ही f के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव है। अतः, परिसर में, सहप्रांत $\{1, 2, 3\}$ के, अधिकतम दो ही अवयव हो सकते हैं, जिससे प्रकट होता है कि f आच्छादक नहीं है, जो कि एक विरोधोक्ति है। अतः f को एकैकी होना ही चाहिए।

उदाहरण 14 सिद्ध कीजिए कि एक एकैकी फलन $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है।

हल चूँकि f एकैकी है, इसलिए $\{1, 2, 3\}$ के तीन अवयव f के अंतर्गत सहप्रांत $\{1, 2, 3\}$ के तीन अलग-अलग अवयवों से क्रमशः संबंधित होंगे। अतः f आच्छादक भी है।

टिप्पणी उदाहरण 13 तथा 14 में प्राप्त परिणाम किसी भी स्वेच्छ परिमित (finite) समुच्चय X , के लिए सत्य है, अर्थात् एक एकैकी फलन $f: X \rightarrow X$ अनिवार्यतः आच्छादक होता है तथा प्रत्येक परिमित समुच्चय X के लिए एक आच्छादक फलन $f: X \rightarrow X$ अनिवार्यतः एकैकी होता है। इसके

विपरीत उदाहरण 8 तथा 10 से स्पष्ट होता है कि किसी अपरिमित (Infinite) समुच्चय के लिए यह सही नहीं भी हो सकता है। वास्तव में यह परिमित तथा अपरिमित समुच्चयों के बीच एक अभिलक्षणिक (characteristic) अंतर है।

प्रश्नावली 1.2

1. सिद्ध कीजिए कि $f(x) =$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ \mathbf{R}_+ सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत \mathbf{R}_+ को \mathbf{N} से बदल दिया जाए, जब कि सहप्रांत पूर्ववत् \mathbf{R}_+ ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा?
2. निम्नलिखित फलनों की एकैक (Injective) तथा आच्छादी (Surjective) गुणों की जाँच कीजिए:
 - (i) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ फलन है।
 - (ii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।
 - (iii) $f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ फलन है।
 - (iv) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ फलन है।
 - (v) $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।
3. सिद्ध कीजिए कि $f(x) = [x]$ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $[x]$, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है।
4. सिद्ध कीजिए कि $f(x) = |x|$ द्वारा प्रदत्त मापांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $|x|$ बराबर x , यदि x धन या शून्य है तथा $|x|$ बराबर $-x$, यदि x ऋण है।
5. सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$,

द्वारा प्रदत्त चिह्न फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

6. मान लीजिए कि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ तथा $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ A से B तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है।

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी, आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी (bijective) हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।
- (i) $f(x) = 3 - 4x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।
- (ii) $f(x) = 1 + x^2$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।
8. मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि $f: A \times B \rightarrow B \times A$, इस प्रकार कि $f(a, b) = (b, a)$ एक एकैकी आच्छादी (bijective) फलन है।

9. मान लीजिए कि समस्त $n \in \mathbf{N}$ के लिए, $f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ \frac{n}{2}, & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$

द्वारा परिभाषित एक फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ है। बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी (bijective) है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।


10. मान लीजिए कि $A = \mathbf{R} - \{3\}$ तथा $B = \mathbf{R} - \{1\}$ हैं। $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3} \right)$ द्वारा परिभाषित फलन $f: A \rightarrow B$ पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।
11. मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^4$ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए।
 (A) f एकैकी आच्छादक है (B) f बहुएक आच्छादक है
 (C) f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है (D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है।
12. मान लीजिए कि $f(x) = 3x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है। सही उत्तर चुनिए:
 (A) f एकैकी आच्छादक है (B) f बहुएक आच्छादक है
 (C) f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है (D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है

1.4 फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन (Composition of Functions and Invertible Function)

इस अनुच्छेद में हम दो फलनों के संयोजन तथा किसी एकैकी आच्छादी (bijective) फलन के प्रतिलोम (Inverse) का अध्ययन करेंगे। सन् 2006 की किसी बोर्ड (परिषद्) की कक्षा X की परीक्षा में बैठ चुके सभी विद्यार्थियों के समुच्चय A पर विचार कीजिए। बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बोर्ड द्वारा एक रोल नंबर दिया जाता है, जिसे विद्यार्थी परीक्षा के समय अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखता है। गोपनीयता रखने के लिए बोर्ड विद्यार्थियों के रोल नंबरों को विरूप (deface) करके,

प्रत्येक रोल नंबर को एक नकली सांकेतिक नंबर (Fake Code Number) में बदल देता है। मान लीजिए कि $B \subset \mathbb{N}$ समस्त रोल नंबरों का समुच्चय है, तथा $C \subset \mathbb{N}$ समस्त सांकेतिक नंबरों का समुच्चय है। इससे दो फलन $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ बनते हैं जो क्रमशः $f(a) =$ विद्यार्थी a को दिया गया रोल नंबर तथा $g(b) =$ रोल नंबर b को बदल कर दिया गया सांकेतिक नंबर, द्वारा परिभाषित हैं। इस प्रक्रिया में फलन f द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रोल नंबर निर्धारित होता है तथा फलन g द्वारा प्रत्येक रोल नंबर के लिए एक सांकेतिक नंबर निर्धारित होता है। अतः इन दोनों फलनों के संयोजन से प्रत्येक विद्यार्थी को अंततः एक सांकेतिक नंबर से संबंध कर दिया जाता है। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है।

परिभाषा 8 मान लीजिए कि $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ दो फलन हैं। तब f और g का संयोजन, $g \circ f$ द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन $g \circ f: A \rightarrow C$, $g \circ f(x) = g(f(x))$, $x \in A$ द्वारा परिभाषित होता है।



आकृति 1.5

उदाहरण 15 मान लीजिए कि $f: \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{3, 4, 5, 9\}$ और $g: \{3, 4, 5, 9\} \rightarrow \{7, 11, 15\}$ दो फलन इस प्रकार हैं कि $f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) = f(5) = 5$ और $g(3) = g(4) = 7$ तथा $g(5) = g(9) = 11$, तो $g \circ f$ ज्ञात कीजिए।

हल यहाँ $g \circ f(2) = g(f(2)) = g(3) = 7$, $g \circ f(3) = g(f(3)) = g(4) = 7$, $g \circ f(4) = g(f(4)) = g(5) = 11$ और $g \circ f(5) = g(5) = 11$.

उदाहरण 16 यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ फलन क्रमशः $f(x) = \cos x$ तथा $g(x) = 3x^2$ द्वारा परिभाषित है तो $g \circ f$ और $f \circ g$ ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए $g \circ f \neq f \circ g$.

हल यहाँ $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\cos x) = 3(\cos x)^2 = 3 \cos^2 x$. इसी प्रकार, $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x^2) = \cos(3x^2)$ हैं। नोट कीजिए कि $x=0$ के लिए $3 \cos^2 x \neq \cos 3x^2$ है। अतः $g \circ f \neq f \circ g$.

उदाहरण 17 यदि

द्वारा परिभाषित फलन

तथा

$$g(x) = \frac{7x+4}{5x-3} \text{ द्वारा परिभाषित फलन}$$

प्रदत्त हैं, तो सिद्ध कीजिए कि

$f \circ g = I_A$ तथा $g \circ f = I_B$, इस प्रकार कि $I_A(x) = x, \forall x \in A$ और $I_B(x) = x, x \in B$, जहाँ $A = \mathbf{R} - \{5\}, B = \mathbf{R} - \{7\}$ हैं। I_A तथा I_B को क्रमशः समुच्चय A तथा B पर तत्समक (Identity) फलन कहते हैं।

हल यहाँ पर

$$= \frac{21x + 28 + 20x - 28}{15x + 20 - 15x + 21} = \frac{41x}{41} = x$$

इसी प्रकार, $f \circ g(x) = f\left(\frac{7x+4}{5x-3}\right) = \frac{3\left(\frac{7x+4}{5x-3}\right) + 4}{5\left(\frac{7x+4}{5x-3}\right) - 7} = \frac{21x + 12 + 20x - 12}{35x + 20 - 35x + 21} = \frac{41x}{41} = x$

उदाहरण 18 सिद्ध कीजिए कि यदि $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ एकैकी हैं, तो $g \circ f: A \rightarrow C$ भी एकैकी है।

हल

$$g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$$

$$\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(x_2), \text{ क्योंकि } g \text{ एकैकी है}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2, \text{ क्योंकि } f \text{ एकैकी है}$$

अतः $g \circ f$ भी एकैकी है।

उदाहरण 19 सिद्ध कीजिए कि यदि $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ आच्छादक हैं, तो $g \circ f: A \rightarrow C$ भी आच्छादक है।

हल मान लीजिए कि एक स्वेच्छ अवयव $z \in C$ है। g के अंतर्गत z के एक पूर्व प्रतिबिंब (Pre-image) $y \in B$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि, $g(y) = z$, क्योंकि g आच्छादक है। इसी प्रकार $y \in B$ के लिए A में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार है कि, $f(x) = y$, क्योंकि f आच्छादक है। अतः $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$, जिससे प्रमाणित होता है कि $g \circ f$ आच्छादक है।

उदाहरण 20 f तथा g ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि gof परिभाषित है तथा एकैकी है। क्या f तथा g दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं?

हल फलन $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ द्वारा परिभाषित और $g(x) = x$, $x = 1, 2, 3, 4$ तथा $g(5) = g(6) = 5$ द्वारा परिभाषित $g: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ पर विचार कीजिए। यहाँ $gof: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ परिभाषित है तथा $gof(x) = x$, x , जिससे प्रमाणित होता है कि gof एकैकी है। किंतु g स्पष्टतया एकैकी नहीं है।

उदाहरण 21 यदि gof आच्छादक है, तो क्या f तथा g दोनों अनिवार्यतः आच्छादक हैं?

हल $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ तथा $g: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ पर विचार कीजिए, जो, क्रमशः $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = f(4) = 3, g(1) = 1, g(2) = 2$ तथा $g(3) = g(4) = 3$ द्वारा परिभाषित हैं। यहाँ सरलता से देखा जा सकता है कि gof आच्छादक है, किंतु f आच्छादक नहीं है।

टिप्पणी यह सत्यापित किया जा सकता है कि व्यापक रूप से gof के एकैकी होने का तात्पर्य है कि f एकैकी होता है। इसी प्रकार gof आच्छादक होने का तात्पर्य है कि g आच्छादक होता है।

अब हम इस अनुच्छेद के प्रारंभ में बोर्ड की परीक्षा के संदर्भ में वर्णित फलन f और g पर बारीकी से विचार करना चाहते हैं। बोर्ड की कक्षा X की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को फलन f के अंतर्गत एक रोल नंबर प्रदान किया जाता है और प्रत्येक रोल नंबर को g के अंतर्गत एक सांकेतिक नंबर प्रदान किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकित पुस्तिका पर सांकेतिक नंबर के समक्ष प्राप्तांक लिख कर बोर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत करता है। बोर्ड के अधिकारी, g के विपरीत प्रक्रिया द्वारा, प्रत्येक सांकेतिक नंबर को बदल कर पुनः संगत रोल नंबर प्रदान कर देते हैं और इस प्रकार प्राप्तांक सांकेतिक नंबर के बजाए सीधे रोल नंबर से संबंधित हो जाता है। पुनः, f की विपरीत प्रक्रिया द्वारा, प्रत्येक रोल नंबर को उस रोल नंबर वाले विद्यार्थी से बदल दिया जाता है। इससे प्राप्तांक सीधे संबंधित विद्यार्थी के नाम निर्धारित हो जाता है। हम देखते हैं कि f तथा g , के संयोजन द्वारा gof , प्राप्त करते समय, पहले f और फिर g को प्रयुक्त करते हैं, जब कि संयुक्त gof , की विपरीत प्रक्रिया में, पहले g की विपरीत प्रक्रिया और फिर f की विपरीत प्रक्रिया करते हैं।

उदाहरण 22 मान लीजिए कि $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ एक एकैकी तथा अच्छादक फलन इस प्रकार है कि $f(1) = a, f(2) = b$ और $f(3) = c$, तो सिद्ध कीजिए कि फलन $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ का ऐसा अस्तित्व है, ताकि $gof = I_X$ तथा $fog = I_Y$, जहाँ $X = \{1, 2, 3\}$ तथा $Y = \{a, b, c\}$ हो।

हल फलन $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ है जहाँ $g(a) = 1, g(b) = 2$ और $g(c) = 3$, पर विचार कीजिए। यह सत्यापित करना सरल है कि संयुक्त फलन $gof = I_X$, X पर तत्समक फलन है और संयुक्त फलन $fog = I_Y$, Y पर तत्समक फलन है।

टिप्पणी यह एक रोचक तथ्य है कि उपर्युक्त उदाहरण में वर्णित परिणाम किसी भी स्वेच्छ एकैकी तथा आच्छादक फलन $f: X \rightarrow Y$ के लिए सत्य होता है। केवल यही नहीं अपितु इसका विलोम (converse) भी सत्य होता है, अर्थात्, यदि $f: X \rightarrow Y$ एक ऐसा फलन है कि किसी फलन $g: Y \rightarrow X$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $gof = I_X$ तथा $fog = I_Y$, तो f एकैकी तथा आच्छादक होता है।

उपर्युक्त परिचर्चा, उदाहरण 22 तथा टिप्पणी निम्नलिखित परिभाषा के लिए प्रेरित करते हैं:

परिभाषा 9 फलन $f: X \rightarrow Y$ **व्युत्क्रमणीय (Invertible)** कहलाता है, यदि एक फलन $g: Y \rightarrow X$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $gof = I_X$ तथा $fog = I_Y$ है। फलन g को फलन f का प्रतिलोम (Inverse) कहते हैं और इसे प्रतीक f^{-1} द्वारा प्रकट करते हैं।

अतः, यदि f व्युत्क्रमणीय है, तो f अनिवार्यतः एकैकी तथा आच्छादक होता है और विलोमतः, यदि f एकैकी तथा आच्छादक है, तो f अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय होता है। यह तथ्य, f को एकैकी तथा आच्छादक सिद्ध करके, व्युत्क्रमणीय प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है, विशेष रूप से जब f का प्रतिलोम वास्तव में ज्ञात नहीं करना हो।

उदाहरण 23 मान लीजिए कि $f: \mathbf{N} \rightarrow Y$, $f(x) = 4x + 3$, द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ $Y = \{y \in \mathbf{N} : y = 4x + 3 \text{ किसी } x \in \mathbf{N} \text{ के लिए}\}$ । सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम

$$\left(\frac{\sqrt{(y-3)}-3}{4}\right) = \frac{4(\text{फलन } f)^{-1} - 3}{4} \text{ ज्ञात कीजिए।}$$

हल Y के किसी स्वेच्छ अवयव y पर विचार कीजिए। Y , की परिभाषा द्वारा, प्रांत \mathbf{N} के किसी अवयव

x के लिए $y = 4x + 3$ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि $g(y) = \frac{(y-3)}{4}$ द्वारा

$g: Y \rightarrow \mathbf{N}$ को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार $gof(x) = g(f(x)) = g(4x + 3) = \frac{(4x + 3 - 3)}{4} = x$

तथा $fog(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{(y-3)}{4}\right) = 4\left(\frac{(y-3)}{4}\right) + 3 = y - 3 + 3 = y$ है। इससे स्पष्ट होता

है कि $gof = I_N$ तथा $fog = I_Y$, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि f व्युत्क्रमणीय है और फलन g फलन f का प्रतिलोम है।

उदाहरण 24 मान लीजिए कि $Y = \{n^2 : n \in \mathbf{N}\} \subset \mathbf{N}$ है। फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow Y$ जहाँ $f(n) = n^2$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए।

हल Y का एक स्वेच्छ अवयव y, n^2 के रूप का है जहाँ $n \in \mathbf{N}$ । इसका तात्पर्य यह है कि $n = \sqrt{y}$ इससे $g(y) = \sqrt{y}$ द्वारा परिभाषित एक फलन $g: Y \rightarrow \mathbf{N}$ प्राप्त होता है। अब

$gof(n) = g(n^2) = n$ और $fog(y) = y$, जिससे प्रमाणित होता है कि $gof = I_N$ तथा $fog = I_S$ है। अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा $f^{-1} = g$.

उदाहरण 25 मान लीजिए कि $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 4x^2 + 12x + 15$ द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{N} \rightarrow S$, जहाँ S, f का परिसर है, व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए।

हल मान लीजिए कि f के परिसर का y एक स्वेच्छ अवयव है। इसलिए $y = 4x^2 + 12x + 15$, जहाँ

$x \in \mathbf{N}$. इसका तात्पर्य यह है कि $y = (2x + 3)^2 + 6$. अतएव

अब, एक फलन $g: S \rightarrow \mathbf{N}$, $g(y) = \frac{((\sqrt{y-6})-3)}{2}$ द्वारा परिभाषित कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{इस प्रकार } gof(x) &= g(f(x)) = g(4x^2 + 12x + 15) = g((2x + 3)^2 + 6) \\ &= \frac{((\sqrt{(2x+3)^2 + 6 - 6}) - 3)}{2} = \frac{(2x + 3 - 3)}{2} = x \end{aligned}$$

और $fog(y) =$

$$= \left((\sqrt{y-6}) - 3 + 3 \right)^2 + 6 = (\sqrt{y-6})^2 + 6 = y - 6 + 6 = y.$$

अतः $gof = I_N$ तथा $fog = I_S$ है। इसका तात्पर्य यह है कि f व्युत्क्रमणीय है तथा $f^{-1} = g$ है।

उदाहरण 26 तीन फलन $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ तथा $h: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$ पर विचार कीजिए जहाँ $f(x) = 2x$, $g(y) = 3y + 4$ तथा $h(z) = \sin z$, x, y तथा $z \in \mathbf{N}$. सिद्ध कीजिए कि $ho(gof) = (hog) of$.

हल यहाँ

$$\begin{aligned} ho(gof)(x) &= h(gof(x)) = h(g(f(x))) = h(g(2x)) \\ &= h(3(2x) + 4) = h(6x + 4) = \sin(6x + 4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{साथ ही, } ((hog)of)(x) &= (hog)(f(x)) = (hog)(2x) = h(g(2x)) \\ &= h(3(2x) + 4) = h(6x + 4) = \sin(6x + 4), \quad x \in \mathbf{N} \end{aligned}$$

इससे प्रमाणित होता है कि $ho(gof) = (hog) \circ f$
यह परिणाम व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है।

प्रमेय 1 यदि $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ तथा $h: Z \rightarrow S$ तीन फलन हैं, तो

$$ho(gof) = (hog) \circ f$$

उपपत्ति यहाँ हम देखते हैं कि

$$ho(gof)(x) = h(gof(x)) = h(g(f(x))), \quad x \text{ in } X$$

$$\text{तथा } (hog) \circ f(x) = hog(f(x)) = h(g(f(x))), \quad x \text{ in } X$$

$$\text{अतः } ho(gof) = (hog) \circ f$$

उदाहरण 27 $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ तथा $g: \{a, b, c\} \rightarrow \{\text{सेब, गेंद, बिल्ली}\}$ $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, g(a) = \text{सेब}, g(b) = \text{गेंद}$ तथा $g(c) = \text{बिल्ली}$ द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f, g और gof व्युत्क्रमणीय हैं। f^{-1}, g^{-1} तथा $(gof)^{-1}$ ज्ञात कीजिए तथा प्रमाणित कीजिए कि $(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ है।

हल नोट कीजिए कि परिभाषा द्वारा f और g एकैकी आच्छादी फलन हैं। मान लीजिए कि $f^{-1}: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ और $g^{-1}: \{\text{सेब, गेंद, बिल्ली}\} \rightarrow \{a, b, c\}$ इस प्रकार परिभाषित हैं कि $f^{-1}\{a\} = 1, f^{-1}\{b\} = 2, f^{-1}\{c\} = 3, g^{-1}\{\text{सेब}\} = a, g^{-1}\{\text{गेंद}\} = b$ और $g^{-1}\{\text{बिल्ली}\} = c$ । यह सत्यापित करना सरल है कि $f^{-1} \circ f = I_{\{1, 2, 3\}}, f \circ f^{-1} = I_{\{a, b, c\}}, g^{-1} \circ g = I_{\{a, b, c\}}$ और $g \circ g^{-1} = I_D$, जहाँ $D = \{\text{सेब, गेंद, बिल्ली}\}$ । अब, $gof: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{\text{सेब, गेंद, बिल्ली}\}$ $gof(1) = \text{सेब}, gof(2) = \text{गेंद}, gof(3) = \text{बिल्ली}$ द्वारा प्रदत्त है।

हम $(gof)^{-1}: \{\text{सेब, गेंद, बिल्ली}\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ को $(gof)^{-1}(\text{सेब}) = 1, (gof)^{-1}(\text{गेंद}) = 2$ तथा $(gof)^{-1}(\text{बिल्ली}) = 3$ द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। यह सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है कि $(gof)^{-1} \circ (gof) = I_{\{1, 2, 3\}}$ तथा $(gof) \circ (gof)^{-1} = I_D$ होगा।

इस प्रकार प्रमाणित होता है कि f, g तथा gof व्युत्क्रमणीय हैं।

अब $f^{-1} \circ g^{-1}(\text{सेब}) = f^{-1}(g^{-1}(\text{सेब})) = f^{-1}(a) = 1 = (gof)^{-1}(\text{सेब})$

$$f^{-1} \circ g^{-1}(\text{गेंद}) = f^{-1}(g^{-1}(\text{गेंद})) = f^{-1}(b) = 2 = (gof)^{-1}(\text{गेंद}) \text{ तथा}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1}(\text{बिल्ली}) = f^{-1}(g^{-1}(\text{बिल्ली})) = f^{-1}(c) = 3 = (gof)^{-1}(\text{बिल्ली})$$

अतः $(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

उपर्युक्त परिणाम व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है।

प्रमेय 2 मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ तथा $g: Y \rightarrow Z$ दो व्युत्क्रमणीय फलन हैं, तो gof भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा $(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

उपपत्ति gof को व्युत्क्रमणीय तथा $(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, को सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना पर्याप्त है कि $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (gof) = I_X$ तथा $(gof) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_Z$ है।

$$\begin{aligned}
\text{अब} \quad (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= ((f^{-1} \circ g^{-1}) \circ g) \circ f, \text{ प्रमेय 1 द्वारा} \\
&= (f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)) \circ f, \text{ प्रमेय 1 द्वारा} \\
&= (f^{-1} \circ I_Y) \circ f, g^{-1} \text{ की परिभाषा द्वारा} \\
&= I_X
\end{aligned}$$

इसी प्रकार, यह प्रमाणित किया जा सकता है कि, $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = I_Z$

उदाहरण 28 मान लीजिए कि $S = \{1, 2, 3\}$ है। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन $f: S \rightarrow S$ के प्रतिलोम फलन हैं। f^{-1} , ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है।

- $f = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- $f = \{(1, 2), (2, 1), (3, 1)\}$
- $f = \{(1, 3), (3, 2), (2, 1)\}$

हल

- यह सरलता से देखा जा सकता है कि f एकैकी आच्छादी है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम $f^{-1} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\} = f$ द्वारा प्राप्त होता है।
- क्योंकि $f(2) = f(3) = 1$, अतएव f एकैकी नहीं है, अतः f व्युत्क्रमणीय नहीं है।
- यह सरलता पूर्वक देखा जा सकता है कि f एकैकी तथा आच्छादक है, अतएव f व्युत्क्रमणीय है तथा $f^{-1} = \{(3, 1), (2, 3), (1, 2)\}$ है।

$\frac{1}{x^3}$

प्रश्नावली 1.3

- मान लीजिए कि $f: \{1, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 5\}$ तथा $g: \{1, 2, 5\} \rightarrow \{1, 3\}$,
 $f = \{(1, 2), (3, 5), (4, 1)\}$ तथा $g = \{(1, 3), (2, 3), (5, 1)\}$ द्वारा प्रदत्त हैं। $g \circ f$ ज्ञात कीजिए।
- मान लीजिए कि f, g तथा h, \mathbf{R} से \mathbf{R} तक दिए फलन हैं। सिद्ध कीजिए कि
$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$$

$$(f \cdot g) \circ h = (f \circ h) \cdot (g \circ h)$$
- $g \circ f$ तथा $f \circ g$ ज्ञात कीजिए, यदि
 - $f(x) = |x|$ तथा $g(x) = |5x - 2|$
 - $f(x) = 8x^3$ तथा $g(x) =$

4. यदि $f(x) = \dots$, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x के लिए $f \circ f(x) = x$ है।
 f का प्रतिलोम फलन क्या है?

5. कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं:

- (i) $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{10\}$ जहाँ
 $f = \{(1, 10), (2, 10), (3, 10), (4, 10)\}$
- (ii) $g: \{5, 6, 7, 8\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ जहाँ
 $g = \{(5, 4), (6, 3), (7, 4), (8, 2)\}$
- (iii) $h: \{2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{7, 9, 11, 13\}$ जहाँ
 $h = \{(2, 7), (3, 9), (4, 11), (5, 13)\}$

6. सिद्ध कीजिए कि $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \dots$, द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। फलन $f: [-1, 1] \rightarrow (f \text{ का परिसर})$, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए।

$$\left(\frac{(3x+4)6-1}{(6x+2)3} \right)$$

(संकेत $y \in$ परिसर f , के लिए, $[-1, 1]$ के किसी x के अंतर्गत $y = f(x) = \dots$, अर्थात् $x = \dots$)

7. $f(x) = 4x + 3$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए।

8. $f(x) = x^2 + 4$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow [4, \infty)$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम $f^{-1}, f^{-1}(y) = \dots$, द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ \mathbf{R}_+ सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।

9. $f(x) = 9x^2 + 6x - 5$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow [-5, \infty)$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा $f^{-1}(y) = \dots$ है।

10. मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय (unique) है। (संकेत: कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g_1 तथा g_2 हैं। तब सभी $y \in Y$ के लिए $f \circ g_1(y) = 1_Y(y) = f \circ g_2(y)$ है। अब f के एकैकी गुण का प्रयोग कीजिए)

11. $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}, f(1) = a, f(2) = b$ तथा $f(3) = c$. द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f^{-1} ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि $(f^{-1})^{-1} = f$ है।
12. मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक व्युत्क्रमणीय फलन है सिद्ध कीजिए कि f^{-1} का प्रतिलोम f , है अर्थात् $(f^{-1})^{-1} = f$ है।

13. यदि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) =$, द्वारा प्रदत्त है, तो $f \circ f(x)$ बराबर है।

(A) $x^{\frac{1}{3}}$ (B) x^3 (C) x (D) $(3 - x^3)$

14. मान लीजिए कि $f(x) =$ द्वारा परिभाषित एक फलन $f: \mathbf{R} -$ $\rightarrow \mathbf{R}$ है। f का

प्रतिलोम, अर्थात् प्रतिचित्र (Map) $g: \text{परिसर } f \rightarrow \mathbf{R} -$, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा:

(A) $g(y) = \frac{4y}{4-3y}$ (B) $g(y) = \frac{4y}{4-3y}$

(C) $g(y) = \frac{4y}{3-4y}$ (D) $g(y) = \frac{3y}{4-3y}$

(44) $\frac{1}{3}$
 $\frac{3}{3}$
 $\frac{3}{3}$

1.5 द्वि-आधारी संक्रियाएँ (Binary Operations)

अपने स्कूल के दिनों में ही आप चार मूल संक्रियाओं, नामतः योग, अंतर, गुणा तथा भाग से परिचित हो चुके हैं। इन संक्रियाओं की मुख्य विशेषता यह है कि दो दी गई संख्याओं a तथा b , से हम एक संख्या $a + b$ या $a - b$ या ab या $\frac{a}{b}, b \neq 0$ को संबद्ध (Associate) कर देते हैं। यह बात नोट कीजिए कि, एक समय में, केवल दो संख्याएँ ही जोड़ी या गुणा की जा सकती हैं। जब हमें तीन संख्याओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो हम पहले दो संख्याओं को जोड़ते हैं और प्राप्त योगफल को फिर तीसरी संख्या में जोड़ देते हैं। अतः योग, गुणा, अंतर तथा भाग द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि 'द्विआधारी' का अर्थ है 'दो आधार वाली'। यदि हम एक व्यापक परिभाषा चाहते हैं, जिसमें यह चारों संक्रियाएँ भी आ जाती हैं, तो हमें संख्याओं के समुच्चय के स्थान पर एक स्वेच्छ समुच्चय X लेना चाहिए और तब व्यापक रूप से द्विआधारी संक्रिया, कुछ अन्य नहीं अपितु, X के दो अवयवों a तथा b को X के ही किसी अवयव से संबद्ध करना है। इससे निम्नलिखित व्यापक परिभाषा प्राप्त होती है:

परिभाषा 10 किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, एक फलन $*$: $A \times A \rightarrow A$ है। हम $*$ (a, b) को $a * b$ द्वारा निरूपित करते हैं।

उदाहरण 29 सिद्ध कीजिए कि \mathbf{R} में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएँ हैं, किंतु भाग \mathbf{R} में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय \mathbf{R} में द्विआधारी संक्रिया है।

हल $+$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $(a, b) \rightarrow a + b$ द्वारा परिभाषित है

$-$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $(a, b) \rightarrow a - b$ द्वारा परिभाषित है

\times : $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $(a, b) \rightarrow ab$ द्वारा परिभाषित है

क्योंकि $+$, $-$ और \times फलन हैं, अतः ये \mathbf{R} में द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

परंतु \div : $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $(a, b) \rightarrow \frac{a}{b}$, एक फलन नहीं है, क्योंकि $b = 0$ के लिए परिभाषित नहीं है।

तथापि \div : $\mathbf{R}_* \times \mathbf{R}_* \rightarrow \mathbf{R}_*$, $(a, b) \rightarrow \frac{a}{b}$ द्वारा परिभाषित एक फलन है और इसलिए यह \mathbf{R}_* में एक द्विआधारी संक्रिया है।

उदाहरण 30 सिद्ध कीजिए कि अंतर (व्यवकलन) तथा भाग \mathbf{N} में द्विआधारी संक्रिया नहीं है।

हल $-$: $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $(a, b) \rightarrow a - b$, द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि $-$

के अंतर्गत $(3, 5)$ का प्रतिबिंब $3 - 5 = -2 \notin \mathbf{N}$. इसी प्रकार, \div : $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $(a, b) \rightarrow$

द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि \div के अंतर्गत $(3, 5)$ का प्रतिबिंब $3 \div 5 = \frac{3}{5} \notin \mathbf{N}$.

उदाहरण 31 सिद्ध कीजिए कि $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $(a, b) \rightarrow a + 4b^2$ द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है।

हल चूँकि $*$ प्रत्येक युग्म (a, b) को \mathbf{R} के एक अद्वितीय अवयव $a + 4b^2$ तक ले जाता है, अतः $*$ \mathbf{R} में एक द्विआधारी संक्रिया है।

उदाहरण 32 मान लीजिए कि P , किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का, समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि \cup : $P \times P \rightarrow P$, $(A, B) \rightarrow A \cup B$ द्वारा प्रदत्त तथा \cap : $P \times P \rightarrow P$, $(A, B) \rightarrow A \cap B$ द्वारा परिभाषित फलन, P में द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

हल क्योंकि सम्मिलन संक्रिया (Union Operation) \cup , $P \times P$ के प्रत्येक युग्म (A, B) को P के एक अद्वितीय अवयव $A \cup B$ तक ले जाती है, इसलिए \cup , समुच्चय P में एक द्विआधारी संक्रिया

है। इसी प्रकार सर्वनिष्ठ (Intersection) संक्रिया \cap , $P \times P$ के प्रत्येक युग्म (A, B) को P के एक अद्वितीय अवयव $A \cap B$ तक ले जाती है, अतएव \cap , समुच्चय P में एक द्विआधारी संक्रिया है।

उदाहरण 33 सिद्ध कीजिए कि $(a, b) \rightarrow$ अधिकतम $\{a, b\}$ द्वारा परिभाषित $: \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा $(a, b) \rightarrow$ निम्नतम $\{a, b\}$ द्वारा परिभाषित $: \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ द्विआधारी संक्रियाएँ हैं।

हल क्योंकि $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ के प्रत्येक युग्म (a, b) को समुच्चय \mathbf{R} के एक अद्वितीय अवयव, नामतः a तथा b में से अधिकतम, पर ले जाता है, अतएव एक द्विआधारी संक्रिया हैं इसी प्रकार के तर्क द्वारा यह कहा जा सकता है कि भी एक द्विआधारी संक्रिया है।

टिप्पणी $(4, 7) = 7$, $(4, -7) = 4$, $(-4, 7) = 4$ तथा $(-4, -7) = -7$ है।

जब किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या कम होती है, तो हम समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया $*$ को एक सारणी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे संक्रिया $*$ की संक्रिया सारणी कहते हैं। उदाहरणार्थ $A = \{1, 2, 3\}$ पर विचार कीजिए। तब उदाहरण 33 में परिभाषित A में संक्रिया निम्नलिखित सारणी (सारणी 1.1) द्वारा व्यक्त की जा सकती है। यहाँ संक्रिया सारणी में $(1, 3) = 3$, $(2, 3) = 3$, $(1, 2) = 2$ ।

सारणी 1.1

	1	2	3
1	1	2	3
2	2	2	3
3	3	3	3

यहाँ संक्रिया सारणी में 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ हैं, जिसमें (i, j) वीं प्रविष्टि समुच्चय A के i वें तथा j वें अवयवों में से अधिकतम होता है। इसका व्यापकीकरण किसी भी सामान्य संक्रिया $* : A \times A \rightarrow A$ के लिए किया जा सकता है। यदि $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ है तो संक्रिया सारणी में n पंक्तियाँ तथा n स्तंभ होंगे तथा (i, j) वीं प्रविष्टि $a_i * a_j$ होगी। विलोमतः n पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले प्रदत्त किसी संक्रिया सारणी, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, का एक अवयव है, के लिए हम एक द्विआधारी संक्रिया $* : A \times A \rightarrow A$ परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार कि $a_i * a_j =$ संक्रिया सारणी की i वीं पंक्ति तथा j वें स्तंभ की प्रविष्टियाँ हैं।

हम नोट करते हैं कि 3 तथा 4 को किसी भी क्रम (order) में जोड़ें, परिणाम (योगफल) समान रहता है, अर्थात् $3 + 4 = 4 + 3$, परंतु 3 तथा 4 को घटाने में विभिन्न क्रम विभिन्न परिणाम देते हैं, अर्थात् $3 - 4 \neq 4 - 3$ । इसी प्रकार 3 तथा 4 गुणा करने में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु 3 तथा 4 के भाग में विभिन्न क्रम विभिन्न परिणाम देते हैं। अतः 3 तथा 4 का योग तथा गुणा अर्थपूर्ण है किंतु 3 तथा 4 का अंतर तथा भाग अर्थहीन है। अंतर तथा भाग के लिए हमें लिखना पड़ता है कि '3 में

से 4 घटाइए' या '4 में से 3 घटाइए' अथवा '3 को 4 से भाग कीजिए' या '4 को 3 से भाग कीजिए'। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है:

परिभाषा 11 समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया $*$ क्रमविनिमेय (Commutative) कहलाती है, यदि प्रत्येक $a, b \in X$ के लिए $a * b = b * a$ हो।

उदाहरण 34 सिद्ध कीजिए कि $+$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा \times : $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ क्रमविनिमेय द्विआधारी संक्रियाएँ हैं, परंतु $-$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा \div : $\mathbf{R}_* \times \mathbf{R}_* \rightarrow \mathbf{R}_*$ क्रमविनिमेय नहीं हैं।

हल क्योंकि $a + b = b + a$ तथा $a \times b = b \times a$, $a, b \in \mathbf{R}$, अतएव '+' तथा '×' क्रमविनिमेय द्विआधारी संक्रियाएँ हैं। तथापि '-' क्रमविनिमेय नहीं है, क्योंकि $3 - 4 \neq 4 - 3$.

इसी प्रकार $3 \div 4 \neq 4 \div 3$, जिससे स्पष्ट होता है कि '÷' क्रमविनिमेय नहीं है।

उदाहरण 35 सिद्ध कीजिए कि $a * b = a + 2b$ द्वारा परिभाषित $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ क्रमविनिमेय नहीं है।

हल क्योंकि $3 * 4 = 3 + 8 = 11$ और $4 * 3 = 4 + 6 = 10$, अतः संक्रिया $*$ क्रमविनिमेय नहीं है।

यदि हम समुच्चय X के तीन अवयवों को X में परिभाषित किसी द्विआधारी संक्रिया के द्वारा संबद्ध करना चाहते हैं तो एक स्वाभाविक समस्या उठती है। व्यंजक $a * b * c$ का अर्थ $(a * b) * c$ अथवा $a * (b * c)$ हो सकता है और यह दोनों व्यंजक, आवश्यक नहीं है, कि समान हों। उदाहरणार्थ $(8 - 5) - 2 \neq 8 - (5 - 2)$ । इसलिए, तीन संख्याओं 8, 5 और 3 का द्विआधारी संक्रिया 'व्यवकलन' के द्वारा संबंध अर्थहीन है जब तक कि कोष्ठक (Bracket) का प्रयोग नहीं किया जाए। परंतु योग की संक्रिया में, $8 + 5 + 2$ का मान समान होता है, चाहे हम इसे $(8 + 5) + 2$ अथवा $8 + (5 + 2)$ प्रकार से लिखें। अतः तीन या तीन से अधिक संख्याओं का योग की संक्रिया द्वारा संबंध, बिना कोष्ठकों के प्रयोग किए भी, अर्थपूर्ण है। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है:

परिभाषा 12 एक द्विआधारी संक्रिया $*$: $A \times A \rightarrow A$ साहचर्य (Associative) कहलाती है, यदि

$$(a * b) * c = a * (b * c), \quad a, b, c, \in A.$$

उदाहरण 36 सिद्ध कीजिए कि \mathbf{R} में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएँ हैं। परंतु व्यवकलन तथा भाग \mathbf{R} में साहचर्य नहीं है।

हल योग तथा गुणा साहचर्य हैं, क्योंकि $(a + b) + c = a + (b + c)$ तथा $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$, $a, b, c \in \mathbf{R}$ है। तथापि अंतर तथा भाग साहचर्य नहीं हैं, क्योंकि $(8 - 5) - 3 \neq 8 - (5 - 3)$ तथा $(8 \div 5) \div 3 \neq 8 \div (5 \div 3)$ ।

उदाहरण 37 सिद्ध कीजिए कि $a * b \rightarrow a + 2b$ द्वारा प्रदत्त $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ साहचर्य नहीं है।

हल संक्रिया $*$ साहचर्य नहीं है, क्योंकि

$$(8 * 5) * 3 = (8 + 10) * 3 = (8 + 10) + 6 = 24,$$

$$\text{जबकि} \quad 8 * (5 * 3) = 8 * (5 + 6) = 8 * 11 = 8 + 22 = 30.$$

टिप्पणी किसी द्विआधारी संक्रिया का साहचर्य गुणधर्म इस अर्थ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम व्यंजक $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ लिख सकते हैं, क्योंकि इस गुणधर्म के कारण यह संदिग्ध नहीं रह जाता है। परंतु इस गुणधर्म के अभाव में, व्यंजक $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ संदिग्ध (Ambiguous) रहता है, जब तक कि कोष्ठक का प्रयोग न किया जाए। स्मरण कीजिए कि पूर्ववर्ती कक्षाओं में, जब कभी अंतर या भाग की संक्रियाएँ अथवा एक से अधिक संक्रियाएँ संपन्न की गई थीं, तब कोष्ठकों का प्रयोग किया गया था।

\mathbf{R} में द्विआधारी संक्रिया '+' से संबंधित संख्या शून्य (zero) की एक रोचक विशेषता यह है कि $a+0=a=0+a$, $a \in \mathbf{R}$, अर्थात् किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। परंतु गुणा की स्थिति में यह भूमिका (Role) संख्या 1 द्वारा अदा की जाती है, क्योंकि $a \times 1 = a = 1 \times a$, $a \in \mathbf{R}$ है। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है।

परिभाषा 13 किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया $*$: $A \times A \rightarrow A$, के लिए, एक अवयव $e \in A$, यदि इसका अस्तित्व है, तत्समक (Identity) कहलाता है, यदि $a * e = a = e * a$, $a \in A$ हो।

उदाहरण 38 सिद्ध कीजिए कि \mathbf{R} में शून्य (0) योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है। परंतु संक्रियाओं $-$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ और \div : $\mathbf{R}_* \times \mathbf{R}_* \rightarrow \mathbf{R}_*$ के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है।

हल $a+0=0+a=a$ और $a \times 1 = a = 1 \times a$, $a \in \mathbf{R}$ का तात्पर्य है कि 0 तथा 1 क्रमशः '+' तथा '×', के तत्समक अवयव हैं। साथ ही \mathbf{R} में ऐसा कोई अवयव e नहीं है कि $a - e = e - a$, $a \in \mathbf{R}$ हो। इसी प्रकार हमें \mathbf{R}_* में कोई ऐसा अवयव e नहीं मिल सकता है कि $a \div e = e \div a$, $a \in \mathbf{R}_*$ हो। अतः '-' तथा '÷' के तत्समक अवयव नहीं होते हैं।

टिप्पणी \mathbf{R} में शून्य (0) धन संक्रिया का तत्समक है, किंतु यह \mathbf{N} में धन संक्रिया का तत्समक नहीं है, क्योंकि $0 \notin \mathbf{N}$ वास्तव में \mathbf{N} में धन संक्रिया का कोई तत्समक नहीं होता है।

हम पुनः देखते हैं कि धन संक्रिया $+$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ के लिए, किसी प्रदत्त $a \in \mathbf{R}$ से संबंधित \mathbf{R} में $-a$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि $a + (-a) = 0$ ('+' का तत्समक) $= (-a) + a$.

इसी प्रकार \mathbf{R} में गुणा संक्रिया के लिए, किसी प्रदत्त $a \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$ से संबंधित हम \mathbf{R} में को इस प्रकार चुन सकते हैं कि $a \times \quad = 1$ ('×' का तत्समक) $= \quad \times a$ हो। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है।

परिभाषा 14 A में तत्समक अवयव e वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया $*$: $A \times A \rightarrow A$ के लिए किसी अवयव $a \in A$ को संक्रिया $*$ के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यदि A में एक ऐसे अवयव b का अस्तित्व है कि $a * b = e = b * a$ हो तो b को a का प्रतिलोम (Inverse) कहते हैं, जिसे प्रतीक a^{-1} द्वारा निरूपित करते हैं।

उदाहरण 39 सिद्ध कीजिए कि \mathbf{R} में धन संक्रिया '+' के लिए $-a$ का प्रतिलोम a है और \mathbf{R} में गुणा संक्रिया '×' के लिए $a \neq 0$ का प्रतिलोम है।

हल क्योंकि $a + (-a) = a - a = 0$ तथा $(-a) + a = 0$, इसलिए $-a$ धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम है। इसी प्रकार, $a \neq 0$, के लिए $a \times \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \times a$, जिसका तात्पर्य यह है कि गुणा संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम है।

उदाहरण 40 सिद्ध कीजिए कि \mathbf{N} में धन संक्रिया '+' के लिए $a \in \mathbf{N}$ का प्रतिलोम $-a$ नहीं है और \mathbf{N} में गुणा संक्रिया '×' के लिए $a \in \mathbf{N}$, $a \neq 1$ का प्रतिलोम नहीं है।

हल क्योंकि $-a \notin \mathbf{N}$, इसलिए \mathbf{N} में धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम $-a$ नहीं हो सकता है यद्यपि $-a$, प्रतिबंध $a + (-a) = 0 = (-a) + a$ को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार, \mathbf{N} में $a \neq 1$ के लिए $\frac{1}{a} \notin \mathbf{N}$, जिसका अर्थ यह है कि 1 के अतिरिक्त \mathbf{N} के किसी भी अवयव का प्रतिलोम \mathbf{N} में गुणा संक्रिया के लिए नहीं होता है।

उदाहरण 34, 36, 38 तथा 39 से स्पष्ट होता है कि \mathbf{R} में धन संक्रिया क्रमविनिमय तथा साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, जिसमें 0 तत्समक अवयव तथा $a \in \mathbf{R}$, a का प्रतिलोम अवयव $-a$ होता है।

प्रश्नावली 1.4

- निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया * से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब * एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए।
 - \mathbf{Z}^+ में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *
 - \mathbf{Z}^+ में, $a * b = ab$ द्वारा परिभाषित संक्रिया *
 - \mathbf{R} में, संक्रिया *, $a * b = ab^2$ द्वारा परिभाषित
 - \mathbf{Z}^+ में, संक्रिया *, $a * b = |a - b|$ द्वारा परिभाषित
 - \mathbf{Z}^+ में, संक्रिया *, $a * b = a$ द्वारा परिभाषित
- निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया * के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या * द्विआधारी क्रमविनिमय है तथा क्या * साहचर्य है।

(i) \mathbf{Z} में, $a * b = a - b$ द्वारा परिभाषित

(ii) \mathbf{Q} में, $a * b = ab + 1$ द्वारा परिभाषित

(iii) \mathbf{Q} में, $a * b =$ द्वारा परिभाषित

(iv) \mathbf{Z}^+ में, $a * b = 2^{ab}$ द्वारा परिभाषित

(v) \mathbf{Z}^+ में, $a * b = a^b$ द्वारा परिभाषित

(vi) $\mathbf{R} - \{-1\}$ में, $a * b =$ द्वारा परिभाषित

3. समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a * b =$ निम्नतम $\{a, b\}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए।

4. समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में, निम्नलिखित संक्रिया सारणी (सारणी 1.2) द्वारा परिभाषित, द्विआधारी संक्रिया $*$ पर विचार कीजिए तथा

(i) $(2 * 3) * 4$ तथा $2 * (3 * 4)$ का परिकलन कीजिए।

(ii) क्या $*$ क्रमविनिमेय है?

(iii) $(2 * 3) * (4 * 5)$ का परिकलन कीजिए।

(संकेत: निम्न सारणी का प्रयोग कीजिए।)

सारणी 1.2

*	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1
4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5

5. मान लीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ तथा b का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया $*$ उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया $*$ के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

6. मान लीजिए कि \mathbf{N} में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $a * b = a$ तथा b का LCM द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए:

(i) $5 * 7, 20 * 16$

(ii) क्या संक्रिया $*$ क्रमविनिमेय है ?

- (iii) क्या * साहचर्य है? (iv) N में * का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए
 (v) N के कौन से अवयव * संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं?

7. क्या समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ में $a * b = a$ तथा b का LCM द्वारा परिभाषित * एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।
8. मान लीजिए कि N में $a * b = a$ तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या * क्रमविनिमेय है? क्या * साहचर्य है? क्या N में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है?
9. मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित * एक द्विआधारी संक्रिया है:
- (i) $a * b = a - b$ (ii) $a * b = a^2 + b^2$
 (iii) $a * b = a + ab$ (iv) $a * b = (a - b)^2$
 (v) $a * b =$ (vi) $a * b = ab^2$

ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएँ क्रमविनिमेय हैं और कौनसी साहचर्य हैं।

10. प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, वह बतलाइए।
11. मान लीजिए कि $A = N \times N$ है तथा A में $(a, b) * (c, d) = (a + c, b + d)$ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि * क्रमविनिमेय तथा साहचर्य है। A में * का तत्समक अवयव, यदि कोई है, तो ज्ञात कीजिए।
12. बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। औचित्य भी बतलाइए।
- (i) समुच्चय N में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया * के लिए $a * a = a$, $a \in N$
 (ii) यदि N में * एक क्रमविनिमेय द्विआधारी संक्रिया है, तो $a * (b * c) = (c * b) * a$
13. $a * b = a^3 + b^3$ प्रकार से परिभाषित N में एक द्विआधारी संक्रिया * पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए
- (A) * साहचर्य तथा क्रमविनिमेय दोनों है
 (B) * क्रमविनिमेय है किंतु साहचर्य नहीं है
 (C) * साहचर्य है किंतु क्रमविनिमेय नहीं है
 (D) * न तो क्रमविनिमेय है और न साहचर्य है

विविध उदाहरण

उदाहरण 41 यदि R_1 तथा R_2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $R_1 \cap R_2$ भी एक तुल्यता संबंध है।

हल क्योंकि R_1 तथा R_2 तुल्यता संबंध है इसलिए $(a, a) \in R_1$, तथा $(a, a) \in R_2$, $a \in A$ इसका तात्पर्य है कि $(a, a) \in R_1 \cap R_2$, a , जिससे सिद्ध होता है कि $R_1 \cap R_2$ स्वतुल्य है। पुनः $(a, b) \in R_1 \cap R_2 \Rightarrow (a, b) \in R_1$ तथा $(a, b) \in R_2 \Rightarrow (b, a) \in R_1$ तथा $(b, a) \in R_2 \Rightarrow (b, a) \in R_1 \cap R_2$, अतः $R_1 \cap R_2$ सममित है। इसी प्रकार $(a, b) \in R_1 \cap R_2$ तथा $(b, c) \in R_1 \cap R_2 \Rightarrow (a, c) \in R_1$ तथा $(a, c) \in R_2 \Rightarrow (a, c) \in R_1 \cap R_2$. इससे सिद्ध होता है कि $R_1 \cap R_2$ संक्रामक है। अतः $R_1 \cap R_2$ एक तुल्यता संबंध है।

उदाहरण 42 मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णाकों के क्रमित युग्मों (ordered pairs) का एक संबंध R , $(x, y) R (u, v)$, यदि और केवल यदि, $xv = yu$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है।

हल स्पष्टतया $(x, y) R (x, y)$, $(x, y) \in A$, क्योंकि $xy = yx$ है। इससे स्पष्ट होता है कि R स्वतुल्य है। पुनः $(x, y) R (u, v) \Rightarrow xv = yu \Rightarrow uy = vx$ और इसलिए $(u, v) R (x, y)$ है। इससे स्पष्ट होता है कि R सममित है। इसी प्रकार $(x, y) R (u, v)$ तथा $(u, v) R (a, b) \Rightarrow xv = yu$

तथा $ub = va \Rightarrow \Rightarrow xv \frac{b}{v} = yu \frac{a}{u} \Rightarrow xb = ya$ और इसलिए $(x, y) R (a, b)$ है।

अतएव R संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है।

उदाहरण 43 मान लीजिए कि $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ है। मान लीजिए कि X में $R_1 = \{(x, y) : x - y \text{ संख्या } 3 \text{ से भाज्य है}\}$ द्वारा प्रदत्त एक संबंध R_1 है तथा $R_2 = \{(x, y) : \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\} \text{ या } \{x, y\} \subset \{2, 5, 8\} \text{ या } \{x, y\} \subset \{3, 6, 9\}\}$ द्वारा प्रदत्त X में एक अन्य संबंध R_2 है। सिद्ध कीजिए कि $R_1 = R_2$ है।

हल नोट कीजिए कि $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ तथा $\{3, 6, 9\}$ समुच्चयों में से प्रत्येक का अभिलक्षण (characteristic) यह है कि इनके किसी भी दो अवयवों का अंतर 3 का एक गुणज है। इसलिए $(x, y) \in R_1 \Rightarrow x - y$ संख्या 3 का गुणज है $\Rightarrow \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\}$ या $\{x, y\} \subset \{2, 5, 8\}$ या $\{x, y\} \subset \{3, 6, 9\} \Rightarrow (x, y) \in R_2$, अतः $R_1 \subset R_2$. इसी प्रकार $\{x, y\} \in R_2 \Rightarrow \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\}$ या $\{x, y\} \subset \{2, 5, 8\}$ या $\{x, y\} \subset \{3, 6, 9\} \Rightarrow x - y$ संख्या 3 से भाज्य है $\Rightarrow \{x, y\} \in R_1$. इससे स्पष्ट होता है कि $R_2 \subset R_1$. अतः $R_1 = R_2$ है।

उदाहरण 44 मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक फलन है। X में $R = \{(a, b) : f(a) = f(b)\}$ द्वारा प्रदत्त एक संबंध R परिभाषित कीजिए। जाँचिए कि क्या R एक तुल्यता संबंध है।

$$\forall \frac{a}{xv} = \frac{yu}{u}$$

हल प्रत्येक $a \in X$ के लिए $(a, a) \in R$, क्योंकि $f(a) = f(a)$, जिससे स्पष्ट होता है कि R स्वतुल्य है। इसी प्रकार, $(a, b) \in R \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow f(b) = f(a) \Rightarrow (b, a) \in R$. इसलिए R सममित है। पुनः $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R \Rightarrow f(a) = f(b)$ तथा $f(b) = f(c) \Rightarrow f(a) = f(c) \Rightarrow (a, c) \in R$, जिसका तात्पर्य है कि R संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है।

उदाहरण 45 निर्धारित कीजिए कि समुच्चय \mathbf{R} में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य हैं और कौन सी क्रमविनिमेय हैं।

(a) $a * b = 1, \forall a, b \in \mathbf{R}$ (b) $a * b = a + b, a, b \in \mathbf{R}$

हल

(a) स्पष्टतया परिभाषा द्वारा $a * b = b * a = 1, a, b \in \mathbf{R}$. साथ ही $(a * b) * c = (1 * c) = 1$ तथा $a * (b * c) = a * (1) = 1, a, b, c \in \mathbf{R}$ अतः R साहचर्य तथा क्रमविनिमेय दोनों है।

(b) $a * b = a + b, \forall a, b \in \mathbf{R}$, जिससे स्पष्ट होता है कि $*$ क्रमविनिमेय

है। पुनः

$$\frac{(a+b)b+a}{2} + \frac{c}{2} = \frac{2ab+2a+2c}{4} = \frac{2a+b+2c}{4} \quad (a * b) * c = \left(\frac{a+b}{2}\right) * c.$$

=

किंतु $a * (b * c) = a * \left(\frac{b+c}{2}\right)$

=

(सामान्यतः)

अतः $*$ साहचर्य नहीं है।

उदाहरण 46 समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल $\{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक एकैकी फलन केवल तीन प्रतीकों 1, 2, 3 का क्रमचय है। अतः $\{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक के प्रतिचित्रों (Maps) की कुल संख्या तीन प्रतीकों 1, 2, 3 के क्रमचयों की कुल संख्या के बराबर होगी, जो कि $3! = 6$ है।

उदाहरण 47 मान लीजिए कि $A = \{1, 2, 3\}$ है। तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या चार है, जिनमें $(1, 2)$ तथा $(2, 3)$ हैं और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो हैं किंतु सममित नहीं हैं।

हल $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$, $(1, 2)$ तथा $(2, 3)$ अवयवों वाला वह सबसे छोटा संबंध R_1 है, जो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब यदि R_1 में युग्म $(2, 1)$ बढ़ा दें, तो प्राप्त संबंध R_2 अब भी स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। इसी प्रकार, हम R_1 में $(3, 2)$ बढ़ा कर R_3 प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें अभीष्ट गुणधर्म हैं। तथापि हम R_1 में किन्हीं दो युग्मों $(2, 1), (3, 2)$ या एक युग्म $(3, 1)$ को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हम, संक्रामकता बनाए रखने के लिए, शेष युग्म को लेने के लिए बाध्य हो जाएँगे और इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संबंध सममित भी हो जाएगा, जो अभीष्ट नहीं है। अतः अभीष्ट संबंधों की कुल संख्या तीन है।

उदाहरण 48 सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $(1, 2)$ तथा $(2, 1)$ को अन्तर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है।

हल $(1, 2)$ तथा $(2, 1)$ को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा तुल्यता संबंध R_1 , $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ है। अब केवल 4 युग्म, नामतः $(2, 3), (3, 2), (1, 3)$ तथा $(3, 1)$ शेष बचते हैं। यदि हम इनमें से किसी एक को, जैसे $(2, 3)$ को R_1 में अंतर्विष्ट करते हैं, तो सममित के लिए हमें $(3, 2)$ को भी लेना पड़ेगा, साथ ही संक्रामकता हेतु हम $(1, 3)$ तथा $(3, 1)$ को लेने के लिए बाध्य होंगे। अतः R_1 से बड़ा तुल्यता संबंध केवल सार्वत्रिक संबंध है। इससे स्पष्ट होता है कि $(1, 2)$ तथा $(2, 1)$ को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की कुल संख्या दो है।

उदाहरण 49 सिद्ध कीजिए कि $\{1, 2\}$ में ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल एक है, जिसका तत्समक 1 है तथा जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है।

हल $\{1, 2\}$ में कोई द्विआधारी संक्रिया $*$, $\{1, 2\} \times \{1, 2\}$ से $\{1, 2\}$ में एक फलन है, अर्थात् $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ से $\{1, 2\}$ तक एक फलन। क्योंकि अभीष्ट द्विआधारी संक्रिया $*$ के लिए तत्समक अवयव 1 है, इसलिए $1 * (1, 1) = 1 * (1, 2) = 2$, $1 * (2, 1) = 2$ और युग्म $(2, 2)$ के लिए ही केवल विकल्प शेष रह जाता है। क्योंकि 2 का प्रतिलोम 2 है, इसलिए $1 * (2, 2)$ आवश्यक रूप से 1 के बराबर है। अतः अभीष्ट द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल एक है।

उदाहरण 50 तत्समक फलन $I_N : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ पर विचार कीजिए, जो $I_N(x) = x$, $\forall x \in \mathbb{N}$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि, यद्यपि I_N आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन $I_N + I_N : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ आच्छादक नहीं है

$$(I_N + I_N)(x) = I_N(x) + I_N(x) = x + x = 2x$$

हल स्पष्टतया I_N आच्छादक है किंतु $I_N + I_N$ आच्छादक नहीं है। क्योंकि हम सहप्रांत \mathbb{N} में एक अवयव 3 ले सकते हैं जिसके लिए प्रांत \mathbb{N} में किसी ऐसे x का अस्तित्व नहीं है कि $(I_N + I_N)(x) = 2x = 3$ हो।

उदाहरण 51 $f(x) = \sin x$ द्वारा प्रदत्त फलन f : तथा $g(x) = \cos x$ द्वारा प्रदत्त फलन

g : पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकैकी है, परंतु $f+g$ एकैकी नहीं है।

हल क्योंकि $\sin x_1 \neq \sin x_2$ तथा $\cos x_1 \neq \cos x_2$ इसलिए f तथा g दोनों ही आवश्यक रूप से एकैकी हैं। परंतु $(f+g)(0) = \sin 0 + \cos 0 = 1$ तथा $(f+g)(\pi) = \sin \pi + \cos \pi = -1$ है। अतः $f+g$ एकैकी नहीं है।

अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली

$$\left[\begin{matrix} \pi & \pi \\ 2 & 2 \end{matrix} \right] = \frac{x\pi}{1+|x|}$$

- मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 10x + 7$ द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ज्ञात कीजिए जिसके लिए $g \circ f = f \circ g = 1_{\mathbf{R}}$ हो।
- मान लीजिए कि $f: \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$, $f(n) = n - 1$, यदि n विषम है तथा $f(n) = n + 1$, यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ \mathbf{W} समस्त पूर्णाकों का समुच्चय है।
- यदि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ जहाँ $f(x) = x^2 - 3x + 2$ द्वारा परिभाषित है तो $f(f(x))$ ज्ञात कीजिए।
- सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \{x \in \mathbf{R} : -1 < x < 1\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$, $x \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है।
- सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ एकैक (Injective) है।
- दो फलनों $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ तथा $g: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि, $g \circ f$ एकैक है परंतु g एकैक नहीं है।
(संकेतन: $f(x) = x$ तथा $g(x) = |x|$ पर विचार कीजिए।)
- दो फलनों $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ तथा $g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ के उदाहरण दीजिए, जो इस प्रकार हों कि, $g \circ f$ आच्छादक है किंतु f आच्छादन नहीं है।

(संकेत: $f(x) = x + 1$ तथा $g(x) = \begin{cases} x-1, & x > 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ पर विचार कीजिए।)

8. एक अरिक्त समुच्चय X दिया हुआ है। $P(X)$ जो कि X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से $P(X)$ में एक संबंध R परिभाषित कीजिए:
 $P(X)$ में उपसमुच्चयों A, B के लिए, ARB , यदि और केवल यदि $A \subset B$ है। क्या $R, P(X)$ में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए।
9. किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय X के लिए एक द्विआधारी संक्रिया $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$ पर विचार कीजिए, जो $A * B = A \cap B$, $A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $P(X)$ समुच्चय X का घात समुच्चय (Power set) है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव X है तथा संक्रिया $*$ के लिए $P(X)$ में केवल X व्युत्क्रमणीय अवयव है।
10. समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
11. मान लीजिए कि $S = \{a, b, c\}$ तथा $T = \{1, 2, 3\}$ है। S से T तक के निम्नलिखित फलनों F के लिए F^{-1} ज्ञात कीजिए, यदि उसका अस्तित्व है:
 (i) $F = \{(a, 3), (b, 2), (c, 1)\}$ (ii) $F = \{(a, 2), (b, 1), (c, 1)\}$
12. $a * b = |a - b|$ तथा $a \circ b = a$, $a, b \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं $*$: $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ तथा \circ : $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि $*$ क्रमविनिमेय है परंतु साहचर्य नहीं है, \circ साहचर्य है परंतु क्रमविनिमेय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी $a, b, c \in \mathbf{R}$ के लिए $a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c)$ है। [यदि ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि संक्रिया $*$ संक्रिया \circ पर वितरित (Distributes) होती है।] क्या \circ संक्रिया $*$ पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।
13. किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय X के लिए मान लीजिए कि $*$: $P(X) \times P(X) \rightarrow P(X)$, जहाँ $A * B = (A - B) \cup (B - A)$, $A, B \in P(X)$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय ϕ , संक्रिया $*$ का तत्समक है तथा $P(X)$ के समस्त अवयव A व्युत्क्रमणीय हैं; इस प्रकार कि $A^{-1} = A$. (संकेत : $(A - \phi) \cup (\phi - A) = A$. तथा $(A - A) \cup (A - A) = A * A = \phi$).
14. निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक द्विआधारी संक्रिया $*$ परिभाषित कीजिए

सिद्ध कीजिए कि शून्य (0) इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव $a \neq 0$ व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार कि $6 - a, a$ का प्रतिलोम है।

$$\forall a * b = a$$

15. मान लीजिए कि $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2\}$ और $f, g : A \rightarrow B$, क्रमशः

$$f(x) = x^2 - x, x \in A \text{ तथा } g(x) = 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - 1, x \in A \text{ द्वारा परिभाषित फलन हैं। क्या}$$

f तथा g समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। (संकेत: नोट कीजिए कि दो फलन $f : A \rightarrow B$ तथा $g : A \rightarrow B$ समान कहलाते हैं यदि $f(a) = g(a) \quad a \in A$ हो।

16. यदि $A = \{1, 2, 3\}$ हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव $(1, 2)$ तथा $(1, 3)$ हों और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
17. यदि $A = \{1, 2, 3\}$ हो तो अवयव $(1, 2)$ वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है।
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
18. मान लीजिए कि $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिह्न फलन (Signum Function) है।

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \text{ तथा } g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(x) = [x], \text{ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ } [x], x \text{ से कम या } x \text{ के बराबर पूर्णांक है, तो क्या } fog \text{ तथा } gof, \text{ अंतराल } [0, 1] \text{ में संपाती (coincide) हैं?}$$

19. समुच्चय $\{a, b\}$ में द्विआधारी सक्रियाओं की संख्या है
 (A) 10 (B) 16 (C) 20 (D) 8

सारांश

इस अध्याय में, हमने विविध प्रकार के संबंधों, फलनों तथा द्विआधारी सक्रियाओं का अध्ययन किया है। इस अध्याय की मुख्य विषय-वस्तु निम्नलिखित है:

- ◆ X में, $R = \phi \subset X \times X$ द्वारा प्रदत्त संबंध R , रिक्त संबंध होता है।
- ◆ X में, $R = X \times X$ द्वारा प्रदत्त संबंध R , सार्वत्रिक संबंध है।
- ◆ X में, ऐसा संबंध कि $\forall a \in X, (a, a) \in R$, स्वतुल्य संबंध है।
- ◆ X में, इस प्रकार का संबंध R , जो प्रतिबंध $(a, b) \in R$ का तात्पर्य है कि $(b, a) \in R$ को संतुष्ट करता है सममित संबंध है।
- ◆ X में, प्रतिबंध $R, (a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R \quad a, b, c \in X$ को संतुष्ट करने वाला संबंध R संक्रामक संबंध है।

- ◆ X में, संबंध R , जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तुल्यता संबंध है।
- ◆ X में, किसी तुल्यता संबंध R के लिए $a \in X$ के संगत तुल्यता वर्ग $[a]$, X का वह उपसमुच्चय है जिसके सभी अवयव a से संबंधित हैं।
- ◆ एक फलन $f: X \rightarrow Y$ एकैकी (अथवा एकैक) फलन है, यदि $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2, \quad x_1, x_2 \in X$
- ◆ एक फलन $f: X \rightarrow Y$ आच्छादक (अथवा आच्छादी) फलन है, यदि किसी प्रदत्त $y \in Y, \exists x \in X$, इस प्रकार कि $f(x) = y$
- ◆ एक फलन $f: X \rightarrow Y$ एकैकी तथा आच्छादक (अथवा एकैकी आच्छादी) फलन है, यदि f एकैकी तथा आच्छादक दोनों है।
- ◆ फलन $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ का संयोजन, फलन $gof: A \rightarrow C$ है, जो $gof(x) = g(f(x)), \quad x \in A$ द्वारा प्रदत्त है।
- ◆ एक फलन $f: X \rightarrow Y$ व्युत्क्रमणीय है, यदि $\exists g: Y \rightarrow X$, इस प्रकार कि $gof = 1_X$ तथा $fog = 1_Y$.
- ◆ एक फलन $f: X \rightarrow Y$ व्युत्क्रमणीय है, यदि और केवल यदि f एकैकी तथा आच्छादक है।
- ◆ किसी प्रदत्त परिमित समुच्चय X के लिए फलन $f: X \rightarrow X$ एकैकी (तदानुसार आच्छादक) होता है, यदि और केवल यदि f आच्छादक (तदानुसार एकैकी) है। यह किसी परिमित समुच्चय का अभिलाक्षणिक गुणधर्म (Characteristic Property) है। यह अपरिमित समुच्चय के लिए सत्य नहीं है।
- ◆ A में एक द्विआधारी संक्रिया $*$, $A \times A$ से A तक एक फलन $*$ है।
- ◆ एक अवयव $e \in X$, द्विआधारी संक्रिया $*$: $X \times X \rightarrow X$, का तत्समक अवयव है, यदि $a * e = a = e * a, \quad a \in X$
- ◆ कोई अवयव $e \in X$ द्विआधारी संक्रिया $*$: $X \times X \rightarrow X$, के लिए व्युत्क्रमणीय होता है, यदि एक ऐसे $b \in X$ का अस्तित्व है कि $a * b = e = b * a$ है जहाँ e द्विआधारी संक्रिया $*$ का तत्समक है। अवयव b, a का प्रतिलोम कहलाता है, जिसे a^{-1} से निरूपित करते हैं।
- ◆ X का एक संक्रिया $*$, क्रमविनिमय है यदि $a * b = b * a, \quad a, b \in X$
- ◆ X में, एक संक्रिया $*$, साहचर्य है यदि $(a * b) * c = a * (b * c), \quad a, b, c \in X$

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

फलन की संकल्पना, R. Descartes (सन् 1596-1650 ई.) से प्रारंभ हो कर एक लंबे अंतराल में विकसित हुई है। Descartes ने सन् 1637 ई. में अपनी पांडुलिपि “Geometrie” में शब्द ‘फलन’ का प्रयोग, ज्यामितीय वक्रों, जैसे अतिपरवलय (Hyperbola), परिवलय (Parabola) तथा दीर्घवृत्त (Ellipse), का अध्ययन करते समय, एक चर राशि x के धन पूर्णांक घात x^n के अर्थ में किया था। James Gregory (सन् 1636-1675 ई.) ने अपनी कृति “Vera Circuliet Hyperbolae Quadratura” (सन् 1667 ई.) में, फलन को एक ऐसी राशि माना था, जो किसी अन्य राशि पर बीजीय अथवा अन्य सँक्रियाओं को उत्तरोत्तर प्रयोग करने से प्राप्त होती है। बाद में G. W. Leibnitz (1646-1716 ई.) ने 1673 ई. में लिखित अपनी पांडुलिपि “Methodus tangentium inversa, seu de functionibus” में शब्द ‘फलन’ को किसी ऐसी राशि के अर्थ में प्रयोग किया, जो किसी वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस प्रकार परिवर्तित होती रहती है, जैसे वक्र पर बिंदु के निर्देशांक, वक्र की प्रवणता, वक्र की स्पर्शी तथा अभिलंब परिवर्तित होते हैं। तथापि अपनी कृति “Historia” (1714 ई.) में Leibnitz ने फलन को एक चर पर आधारित राशि के रूप में प्रयोग किया था। वाक्यांश ‘ x का फलन’ प्रयोग में लाने वाले वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे। John Bernoulli (1667-1748 ई.) ने सर्वप्रथम 1718 ई. में संकेतन (Notation) ϕx को वाक्यांश ‘ x का फलन’ को प्रकट करने के लिए किया था। परंतु फलन को निरूपित करने के लिए प्रतीकों, जैसे $f, F, \phi, \psi \dots$ का व्यापक प्रयोग Leonhard Euler (1707-1783 ई.) द्वारा 1734 ई. में अपनी पांडुलिपि “Analysis Infnitorium” के प्रथम खण्ड में किया गया था। बाद में Joeph Louis Lagrange (1736-1813 ई.) ने 1793 ई. में अपनी पांडुलिपि “Theorie des fonctions analytiques” प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने विश्लेषणात्मक (Analytic) फलन के बारे में परिचर्चा की थी तथा संकेतन $f(x), F(x), \phi(x)$ आदि का प्रयोग x के भिन्न-भिन्न फलनों के लिए किया था। तदोपरांत Lejeunne Dirichlet (1805-1859 ई.) ने फलन की परिभाषा दी। जिसका प्रयोग उस समय तक होता रहा जब तक वर्तमान काल में फलन की समुच्चय सैद्धांतिक परिभाषा का प्रचलन नहीं हुआ, जो Georg Cantor (1845-1918 ई.) द्वारा विकसित समुच्चय सिद्धांत के बाद हुआ। वर्तमान काल में प्रचलित फलन की समुच्चय सैद्धांतिक परिभाषा Dirichlet द्वारा प्रदत्त फलन की परिभाषा का मात्र अमूर्तीकरण (Abstraction) है।

